

सं. 28 : एसजीएल लेनदेनों के आधार पर भारत सरकार की प्रतिभूतियों पर परिशोधनगत प्रतिफल*

(वार्षिक प्रतिशत)

क्र. सं.	ऋण का नाम	2006-07	2007-08	2008-09	2008		2009			
					अप्रैल	मई	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5 वर्ष से कम में समाप्त									
1	5.48% 2009	6.88	7.63	7.29	7.70	7.73	4.80	5.09	3.93	3.25
2	6.65% 2009	7.51	7.66	6.62	7.75	7.74	4.68	4.80	..	..
3	6.99% 2009	..	..	..	..	..	..	..	..	..
4	7.00% 2009	7.50	8.09	7.75	..	..	5.37	7.02	..	..
5	11.50% 2009	7.52	7.95	7.31	..	..	..	..	..	..
6	11.99% 2009	7.25	7.65	7.40	..	..	4.85	5.83	..	..
7	5.87% 2010	..	7.63	7.48	7.78	7.81	4.67	5.15	4.31	3.89
8	6.00% 2010	..	..	..	..	..	..	..	..	..
9	6.20% 2010	..	..	..	..	..	..	..	..	..
10	7.50% 2010	7.77	7.35	7.61	7.66	..	6.50	5.52	5.15	6.94
11	7.55% 2010	7.42	7.69	6.60	7.64	7.82	4.78	5.33	4.26	3.99
12	8.75% 2010	7.98	..	7.52	..	..	..	6.65	..	..
13	11.30% 2010	7.39	7.70	7.65	8.18	7.86	4.75	5.06	4.48	4.11
14	11.50% 2010	7.43	7.70	6.32	7.57	7.81	5.37	..	4.91	..
15	12.25% 2010	7.45	7.55	6.90	7.86	7.82	4.70	4.87	4.46	4.10
16	12.29% 2010	7.50	7.78	7.29	7.58	..	5.02	6.05	..	4.09
17	5.03% 2011	..	..	..	..	..	..	..	..	..
18	6.57% 2011	..	7.37	7.28	7.98	7.80	4.90	5.41	5.01	4.84
19	8.00% 2011	7.86	7.93	7.11	..	..	6.62	7.00	..	6.01
20	9.39% 2011	7.52	7.78	7.11	8.06	7.98	5.14	5.38	5.16	4.91
21	10.95% 2011	7.33	7.94	6.86	..	7.93	..	6.02	5.32	4.89
22	11.50% 2011	7.43	7.82	6.37	..	..	5.81	6.74	5.56	4.83
23	12.00% 2011	7.97	7.95	6.92	..	..	5.70	..	5.14	4.83
24	12.32% 2011	7.59	7.85	7.09	8.38	..	5.12	5.94	4.88	5.06
25	6.72% 2012	6.93	7.87	7.75	..	..	..	..	..	..
26	6.85% 2012	7.58	7.80	6.32	..	..	5.65	6.17	5.99	5.75
27	7.40% 2012	7.55	7.83	7.35	7.59	..	5.67	6.06	5.50	5.59
28	9.40% 2012	7.60	7.87	7.10	8.14	..	5.58	6.45	5.80	5.77
29	10.25% 2012	7.88	8.08	8.36	7.78	..	6.78	7.36	..	6.95
30	11.03% 2012	7.81	8.10	6.62	..	..	5.68	5.97	6.00	6.52
31	7.27% 2013	7.58	7.66	7.21	7.97	7.91	5.87	6.44	6.02	5.99
32	9.00% 2013	7.86	8.25	7.61	..	..	6.27	6.80	..	..
33	9.81% 2013	7.85	8.11	6.92	..	..	..	..	..	..
	5 से 10 वर्ष के बीच									
34	12.40% 2013	7.93	7.99	7.90	8.07	7.96	6.66	6.80	6.28	6.73
35	6.07% 2014	..	..	..	..	..	..	..	..	6.00
36	6.72% 2014	8.05	7.89	6.63	..	..	..	6.63	6.26	..
37	7.37% 2014	7.74	7.86	7.40	7.85	7.93	6.19	6.57	6.25	6.37
38	7.56% 2014	..	..	6.27	..	..	5.93	6.38	6.25	6.19
39	10.00% 2014	7.71	8.09	7.96	..	8.80	..	6.88	6.72	7.93
40	10.50% 2014	7.83	7.85	7.86	..	..	6.11	6.75	..	7.33
41	11.83% 2014	7.84	7.94	7.85	8.00	7.92	6.25	6.58	6.04	..
42	7.38% 2015	7.70	7.95	7.66	8.04	7.99	6.47	6.65	6.51	6.41
43	9.85% 2015	7.76	8.01	7.69	..	..	..	6.95	..	..
44	10.47% 2015	7.59	8.06	7.49	..	..	7.16	7.00	6.53	6.78
45	10.79% 2015	7.65	8.02	8.37	..	..	6.45	6.25	..	..
46	11.43% 2015	7.92	8.06	6.96	..	8.51	6.45	6.85	7.01	7.92
47	11.50% 2015	7.91	8.12	7.46	8.05	7.89	6.41	6.61	..	6.84
48	5.59% 2016	7.66	8.18	7.13	8.29	..	..	7.10	..	6.23

सं. 28 : एसजीएल लेनदेनों के आधार पर भारत सरकार की प्रतिभूतियों पर परिशोधनगत प्रतिफल* (समाप्त)

(वार्षिक प्रतिशत)

क्र. सं.	ऋण का नाम	2006-07	2007-08	2008-09	2008		2009			
					अप्रैल	मई	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	7.59% 2016	7.79	7.91	7.33	..	8.03	6.52	6.92	6.60	6.75
50	10.71% 2016	7.95	7.89	6.44	..	..	..	..	7.45	..
51	12.30% 2016	8.21	8.41	8.04	..	8.66	6.59	6.93	..	7.19
52	7.46% 2017	7.81	7.88	7.00	8.09	8.11	6.61	6.91	6.64	6.84
53	7.49% 2017	7.82	7.87	7.57	7.95	8.10	6.71	6.99	6.52	6.92
54	7.99% 2017	..	7.85	7.84	8.04	8.02	6.67	7.10	6.55	6.73
55	8.07% 2017	7.80	7.93	7.29	8.05	8.00	6.58	7.00	6.73	6.71
56	5.69% 2018	7.95	7.99	7.54	..	8.04	6.25	6.62	6.35	6.27
57	6.25% 2018	7.91	8.03	7.15	7.84	8.08	6.49	6.88	6.71	6.54
58	8.24% 2018	..	..	7.60	8.12	7.94	6.36	6.69	6.55	6.53
59	10.45% 2018	8.05	8.19	7.00	..	..	..	6.85	..	6.70
60	12.60% 2018	7.91	..	7.74	..	..	..	7.30	..	..
10 और 15 वर्ष के बीच										
61	5.64% 2019	8.12	8.07	7.66	8.17	8.18	6.43	6.89	..	6.46
62	6.05% 2019	7.91	8.11	7.06	7.91	8.04	6.02	6.48	6.46	6.40
63	10.03% 2019	7.83	8.22	6.90	..	..	6.37	6.89	6.62	..
64	10.70% 2020	8.00	8.48	7.54	..	8.66	6.70	7.44	7.11	6.94
65	11.60% 2020	7.73	8.00	7.91	..	..	..	7.11	..	..
66	7.94% 2021	8.07	8.11	7.52	8.33	8.19	7.19	7.81	7.01	7.40
67	10.25% 2021	8.07	8.11	7.81	..	8.23	6.78	7.44	7.25	7.51
68	5.87% 2022	8.02	6.87	7.48	6.18	8.27	..	..	..	..
69	8.08% 2022	..	7.90	..	..	..	..	..	..	..
70	8.13% 2022	..	7.90	..	..	..	..	..	..	..
71	8.20% 2022	..	7.95	7.84	8.36	8.18	6.97	7.39	6.84	7.30
72	8.35% 2022	8.02	7.99	7.90	8.38	8.19	7.12	7.47	7.19	7.54
73	6.17% 2023	8.01	8.18	7.44	8.14	8.33	6.88	7.38	7.05	6.68
74	6.30% 2023	8.01	8.08	6.85	..	..	6.95	7.09	6.83	7.23
15 वर्ष से अधिक										
75	10.18% 2026	7.86	8.26	8.00	..	..	..	7.88	7.82	..
76	8.24% 2027	8.19	8.06	8.32	..	..	7.26	7.74	7.43	7.47
77	8.26% 2027	..	8.21	8.34	..	..	..	..	..	..
78	6.01% 2028	8.02	8.28	7.82	8.49	8.62	6.97	7.48	7.35	7.32
79	6.13% 2028	8.02	8.31	7.58	8.32	8.30	7.11	7.51	7.37	7.29
80	7.95% 2032	8.07	8.19	8.19	8.60	8.37	7.45	7.62	7.49	7.37
81	8.28% 2032	..	..	8.27	..	8.48	7.40	7.67	7.60	7.25
82	8.32% 2032	..	7.94	..	..	..	..	..	..	..
83	8.33% 2032	..	..	82.61	..	..	..	..	..	..
84	7.5% 2034	8.19	8.38	7.64	..	8.64	7.47	7.71	7.49	7.47
85	7.40% 2035	8.14	8.27	7.53	..	8.51	7.30	7.50	7.41	7.47
86	8.33% 2036	8.13	8.28	8.05	8.58	8.39	7.50	7.74	7.37	7.48
87	6.83% 2039	..	..	7.39	..	..	7.30	7.69	7.44	7.44

* : मासिक परिशोधनगत प्रतिफल की गणना अप्रैल 2000 से प्रत्येक कारोबारगत प्रतिभूति में लेनदेन से प्राप्त दैनिक भारित औसत प्रतिफल के मध्यमान के रूप में की गई है। भारांक का परिकलन उक्त प्रतिभूति में लेनदेन के कुल मूल्य में उक्त प्रतिभूति के लेनदेन के अंश के रूप में किया गया है। अप्रैल 2000 से पहले इसमें परिशोधनगत प्रतिफल को भारांक नहीं दिया जाता था और प्रत्येक प्रतिभूति के दैनिक मूल्य के औसत के रूप में उसकी गणना की जाती थी।

@ : भारत सरकार की प्रतिभूतियां, जिनमें 'काल' और 'पुट' आप्शन का प्रयोग निर्गम की तारीख से 5 वर्ष पर या उसके बाद किया जा सकता है।

.. : दर्शाता है कि संबंधित प्रतिभूति ट्रेडिंग हेतु उपलब्ध नहीं थी।

.. : दर्शाता है कि संबंधित प्रतिभूति का माह के दौरान ट्रेडिंग शून्य/नगण्य था।